



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

18 आश्विन 1935 (श0)  
(सं0 पटना 809) पटना, वृहस्पतिवार, 10 अक्टूबर 2013

---

सं0 3ए-9-विविध-34/2012-10594-वि0

वित्त विभाग

---

प्रेषक,

प्रभात शंकर,  
अपर सचिव, वित्त विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक 10 अक्टूबर 2013

**विषय:-** बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को पद्मनाभन समिति की अनुशंसा के क्रम में अनुमान्य किए गए पुनरीक्षित वेतनमान के परिप्रेक्ष्य में यात्रा भत्ता की स्वीकृति ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए यात्रा भत्ता, मील भत्ता एवं स्थानांतरण अनुदान आदि की दरों के पुनरीक्षण के संबंध में वित्त विभागीय पत्रांक 8383, दिनांक 14/08/2013 द्वारा स्वीकृत्यादेश निर्गत किया गया था ।

2. उपर संदर्भित स्वीकृत्यादेश की कंडिका 1 में वर्णित न्यायिक पदाधिकारियों के वर्गीकरण को विलोपित करते हुए निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है:-

क्र० सं०	श्रेणी	वेतन (रुपये में)
1	I	51,550/- तथा उससे उपर
2.	II	39530/- से 51,550/- के नीचे
3.	III	27,700/- से 39,530/- के नीचे

3. संदर्भित स्वीकृत्यादेश की कंडिका 4 (ग) (i) के श्रेणी III में अंकित “3 हजार किलोग्राम तक मालवाही ट्रेन द्वारा” को विलोपित करते हुए “6 हजार किलोग्राम तक मालवाही ट्रेन द्वारा” से प्रतिष्ठापित किया जाता है ।

4. वित्त विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 8383, दिनांक 14/08/2013 निर्गत करने की तिथि अर्थात् 14/08/2013 से प्रभावी मानी जायेगी ।

5. उपर अंकित स्वीकृत्यादेश की अन्य कंडिकाएँ यथावत् रहेगी ।

विश्वासभाजन,  
प्रभात शंकर,  
सरकार के अपर सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 809-571+500-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>